

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 10.3.2016

### कार्यालय जापन

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में अनुसंधान सहायक (हिंदी भाषा) के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में अनुसंधान सहायक (भाषा) वेतनमान पीबी-2 रुपये 9300-34,800 जमा रु. 4200 ग्रेड वेतन (अराजपत्रित समूह 'ख') के एक पद को प्रतिनियुक्ति/आमेलन, (सशस्त्र बलों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन) के आधार पर भरने के लिए, उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं। इस पद पर चयनित अधिकारी का वेतन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून 2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था(वेतन-2), समय समय पर यथासंशोधित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2. अतः अनुरोध है कि इस पद के लिए योग्य, इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में), संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-1।) में, इस कार्यालय जापन के जारी होने या विज्ञप्ति के इम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, जो भी स्थिति बाद में हो, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अयोहस्ताक्षरी को उचित माध्यम से भेज दें:-


- (क) आवेदक की पिछले पाँच वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट की समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रति।
- (ख) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।
- (ग) अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/सर्तकता का मामला लंबित न हो तथा न ही इस प्रकार का कोई मामला चलाए जाने का विचार है, का प्रमाण-पत्र।
- (घ) अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यदि कोई छोटी/बड़ी शास्ति लगाई गई हो, का विवरण।
- (ङ) आवेदक के संबंध में संवर्ग अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

सातवां तल, पर्यावरण भवन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

7th Floor, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003 टेलीफैक्स/Telefax : 011-24366794, 24365089

ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या जिनके साथ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां नहीं होंगी या संबंधित कार्यालय की संस्तुति के बिना प्राप्त होंगे या अन्यथा अपूर्ण होंगे, उन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी आवेदन करेंगे, उन्हें अपना आवेदन पत्र बाद में वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र अंग्रेषित करते समय इस बात की जांच एवं पुष्टि कर ली जाए कि अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं। इस बात की भी पुष्टि कर दी जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारी को उसके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

  
(प्रभात कुमार सिंह)  
प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारत का निर्वाचन आयोग।
3. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग।
5. केंद्रीय सर्तकता आयोग।
6. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. गार्ड फाइल।

1.	पद का नाम	अनुसंधान सहायक (हिंदी भाषा)
2.	पदों की संख्या	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अन्नसचिवीय
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + रु. 4200 ग्रेड वेतन
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति की अवधि,जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है। साधारणतय: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	पात्रता	<p>केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सटश्य पद धारण कर रहे हैं; या</p> <p>(II) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, (रु.5200-20200) और ग्रेड वेतन रु.2800 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा कर चुके हों; या</p> <p>(III) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, (रु.5200-20200) और ग्रेड वेतन रु.2400 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 10 वर्ष सेवा कर चुके हों और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में हो।</p> <p>ii. हिंदी में शब्दावली कार्य का और अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान्यता दी जाएगी, या</p> <p>हिंदी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव।</p>

		<p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :  प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियोजन:  वेतन बैंड-2, रु.9300-34800 और ग्रेड वेतन रु.4200 या समतुल्य में कनिष्ठ कमिश्नर अधिकारी के रैंक के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के निबंधनों पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन।)</p>
7.	अपेक्षित कार्य:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उपसंस्थानों तथा हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण संबंधी आँकड़ों का संचयन/विश्लेषण एवं समेकन करना।</li> <li>2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उपसंस्थानों तथा हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत हिंदी प्राध्यापकों/सहायक निदेशकों की मासिक रिपोर्ट, सत्र रिपोर्ट तथा निष्पादन प्रगति रिपोर्ट का संकलन कर समीक्षा हेतु प्रस्तुत करना।</li> <li>3. हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित आदेशों को संकलित करना व उन्हें अद्यतन रखना।</li> <li>4. हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या जानने हेतु छमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। इस हेतु संबंधित विभागों से पत्राचार करने हेतु मिसिल प्रस्तुत करना तथा आँकड़ों का समेकन व संचयन करना।</li> <li>5. हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना।</li> <li>6. सभी क्षेत्रों की विशेष गतिविधियों को समेकित कर प्रस्तुत करना।</li> <li>7. हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के बारे में विभिन्न कार्यालयों द्वारा मांगी जाने वाली जानकारियों को उपलब्ध कराने हेतु मिसिल प्रस्तुत करना।</li> <li>8. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक में सभी प्रकार की सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु अधिकारियों को सहयोग देना।</li> </ol>

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में अनुसंधान सहायक (हिंदी भाषा) पद के लिए आवेदन पत्र

1.	नाम और पता (साफ अक्षरों में) दूरभाष सहित	
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
3.	केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.	शैक्षणिक योग्यताएं	
5.	क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं, यदि किसी योग्यता को नियमों में उल्लिखित योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें	
अपेक्षित अर्हता/अनुभव (i) (ii) (iii)		अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
6.	कृपया सुस्पष्ट करें कि आपके द्वारा ऊपर दी गई प्रवृष्टियों के अनुसार आप पद की अपेक्षताएं पूरी करते हैं	
7.	अपने रोजगार का क्रमवार विवरण दें। यदि नीचे स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग से कागज संलग्न करें:-	

कार्यालय/ संस्थान/ संगठन	धारित पद व संबंधित सेवा संवर्ग	से	तक	वेतनमान तथा पद का वर्गीकरण (समूह) और मूल वेतन	नियुक्ति का स्वरूप (अर्थात् तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति नियमित)	कार्य का स्वरूप
1	2	3	4	5	6	7

8. वर्तमान धारित पद का स्वरूप

- (1) तदर्थ
- (II) नियमित/ अस्थाई
- (III) स्थाई/अर्द्ध स्थाई

9. यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर है तो कृपया यह बताएं:-

- (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
- (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि -
- (ग) कार्यालय संगठन का नाम जिससे आपका मूल संबंध है:-

10.	वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
11.	कृपया बताएं कि आप इसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।	
12.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां तो वेतन संशोधित होने की तारीख और पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
13.	अब प्रतिमाह प्राप्त कुल उपलब्धियां	
14.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। इनमें से कुछ विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है:- (I) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (II) व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं (III) उपरोक्त रिक्त पद के लिए निर्धारित परिपत्र/विज्ञापन के अनुसार कार्य अनुभव (नोट:- यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है।	
15.	कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति आधार पर आवेदन कर रहे हैं।	
16.	क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं।	
17.	टिप्पणियां (अभ्यर्थी को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देनी होगी कि क्या उनका कोई (I) अनुसंधान पत्र/रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना प्रकाशित हुई है। (II) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/अधिकारिक प्रशंसा	

<p>(iii) व्यावसायिक ईकाई/संस्थानों/संस्थाओं में मान्यता तथा (iv) अन्य कोई सूचना ( यदि स्थान पर्याप्त नहीं हो तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है )।</p>	
<p>मैं उपरोक्त पद के लिए दिए गए परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखा है। मेरे द्वारा दिया गया आत्मवृत्त विवरण तथा संबंधित प्रलेखों के बारे में, मैं पूरी तरह की जानकारी रखता हूँ तथा चयन के समय चयन समिति द्वारा इनका मूल्यांकन भी किया जाएगा।</p>	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता:

दूरभाष नं०

तारीख

### केवल कार्यालय प्रयोग के लिए नियोक्ता /कार्यालय अध्यक्ष/प्रेषण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा अपने आवेदन पत्र (अनुबंध-11) में शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के संबंध में दिए गए विवरण सही है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला न तो लंबित है और न ही किसी मामले पर विचार किया जाना अपेक्षित है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इनकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध है।
4. श्री/श्रीमती/सुश्री की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट के डोजियर/अपेक्षित गोपनीय रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं।

स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर  
नाम व पदनाम  
पदनाम